

**संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण**

**01 अदद अवैध चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नाम पता जुनैद उर्फ जुनैदुर्रहमान पुत्र अब्दुल रहमान निवासी सेमरियांवा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 295/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 13 अभियुक्त गिरफ्तार**

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 10 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

**पीआरवी आफ द डे**

**पीआरवी 2545 द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल** – पीआरवी 2545 को थाना को0 खलीलाबाद के बालूशासन से इवेन्ट संख्या 01543 से दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 08 मिनट में मौके पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाया गया तथा मोटरसाइकिल की डिग्गी से बाहर गिरे हुए 02 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि को घायल अरविन्द को सुपुर्द किया गया तथा थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर घायल व्यक्ति की जान व माल की रक्षा की गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

**पीआरवी स्टाफ** –आरक्षी जितेन्द्र गुप्ता, हो0गा0 विजय लक्ष्मी, हो0चा0 राकेश पाण्डेय।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 112 वाहनो से 90500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**  
आज दिनांक 30-09-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 112 वाहनो से 90500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।